### INDO COTSPIN LIMITED

REGD. OFF: DELHI MILE STONE 78 K.M, G.T, ROAD, N.H-44 VILLAGE JHATTIPUR POST BOX NO. 3, POST OFFICE SAMALKHA, PANIPAT-132103(HARYANA) INDIA

CIN: L17111HR1995PLC032541, ISIN: INE407P01017 SCRIP CODE: 538838, SCRIP ID: ICL, PAN NO. AAACI4596A EMAIL ID: <a href="mailto:rajpalaggarwal2000@yahoo.com">rajpalaggarwal2000@yahoo.com</a>, www.indocotspin.com EMAIL ID: <a href="mailto:info@indocotspin.com">info@indocotspin.com</a>, 9896034879

Date: 28.10.2023

To, The Manager, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai- 400001.

Company Symbol: ICL Script Code: 538838

Subject: Newspaper advertisement titled statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2023

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith attached copies of Newspaper advertisement for the statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended on 30<sup>th</sup> September, 2023, published in following newspapers:

- "Financial Express" for English language national wide daily circulation;
- "Jansatta" in Hindi (Regional) language.

Further, this will also be hosted on the Company's website at www.indocotspin.com

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For and on behalf of Indo Cotspin Limited

BAL KISHAN AGGARWAL Digitally signed by BAL KISHAN AGGARWAL Date: 2023.10.28 15:16:06 +0530°

Bal Kishan Aggarwal Managing Director DIN: 00456219

Encl: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 



### DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, DEHRADUN

Government of India, Ministry of Finance, (Department of Financial Services) 2ND FLOOR, PARAS TOWER, MAZRA, SAHARANPUR ROAD DEHRADUN, UK-248171

PUBLICATION NOTICE MA No. 07 of 2023 in OA No. 110 of 2021 SUMMONS UNDER SUB-SECTION (4) OF SECTION 19 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT, 1993, READ WITH SUB- RULE (2A) OF RULE 5 OF THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993 AS

Dy. No. 923/2023 Dated: 11.10.2023 Kotak Mahindra Bank Ltd. V/s Gurdayal Singh & Ors.

AMENDED FROM TIME TO TIME)

 Mr. Gurdayal Singh S/o Shri Bachan Singh R/o Village: Kataiya Pandari, Tehsil & District: Pilibhit, UP (262121)

2. Mr. Dhamendar Pal Singh S/o Gurdayal Singh R/o Village: Kataiya Pandari, Tehsil & District Pilibhit, UP (262121) 3. Mr. Rajendra Singh S/o Gurdayal Singh R/o Village: Kataiya Pandari, Tehsil & District

Pilibhit, UP (262121)

 Mrs. Prakash Kaur W/o Gurdayal Singh R/o Village: Kataiya Pandari, Tehsil & District Pilibhit, UP (262121)

5. Mr. Kulwant Singh S/o Shri Bhajan Singh R/o Village: Kataiya Pandari Tehsil & District Pilibhit, UP (262121)

Whereas the above named Applicant Bank has instituted M.A No. 07 of 2023 in OA No. 110 of 2021 against you for recovery of remaining debts of Rs. 77,86,178.66 in which Hon'ble Tribunal was pleased to issue Summons/Notice and was listed before the Hon'ble Presiding Officer on 03.10.2023.

Whereas, it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by way of this publication directing you to appear in person or through your duly authorized agent or lega

practitioner before the Tribunal on 20.11.2023 at 10.30 A.M. Take notice that in case of default of your appearance on the specified day and time

before the Tribunal, the case shall be heard and decided in your absence.

Given under by hand and seal of this Tribunal on this the 11th day of October 2023. By order of Tribunal Debts Recovery Tribunal,

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao

Dehradun

TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552 DEMAND NOTICE

Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules"). Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance

Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12). read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notices dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amounts indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL by the said Obligor(s) respectively.

Contract No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Total Outstanding Dues (Rs.) as on below date*	Date of Demand Notice Date of NPA	
949197	Mr. Ranjeet Kumar (Borrower)	As on 21/10/2023, an amount of Rs.		
5		7,99,828 /- (Rupees Seven Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred Twenty Eight Only)	07-09-2023	

Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties All that Piece & Parcels of Residential House No. 4652/LIG/GF, Admeasuring 15.52 Sq. Mtrs., Situated at Housing Board Colony, Pocket - II, Tehsil Ballabhgarh, Sector - 03. Faridabad - 121004 (Haryana), with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries as: East - House No. 4677/GF, West - Road, North - House No. 4653/GF South-House No. 4651/GF.

953 Mr. Yogesh Kumar As on 21/10/2023, an amount of Rs. 21-10-2023 801 (Borrower) and Mrs. 5,68,294/- (Rupees Five Lakh Sixty Eight 07-08-202) 8 Gayatri Devi (Co-Borrower) Thousand Two Hundred Ninety Four Only) Description of the Secured Assets/Immovable Properties/ Mortgaged Properties

All that Piece & Parcels of Residential Unit/Flat bearing No. 4009, 04th Floor, Tower - C2, Admeasuring Carpet Area 414.37 Sq. Ft. & Balcony Area 64.58 Sq. Ft., Situated at Raheja Krishan Housing Scheme, Raheja Aranya City, Sector 14, Sohna, Distt. Gurgaon (Haryana).

with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notice dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.

Date: 30/10/2023 Place: Delhi

For Tata Capital Housing Finance Limited

Sd/-Authorised Officer

## RITESH INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L15142PB1981PLC004736 Registered Office: Momnabad Road, Village Akbarpura. (Ahmedgarh) District Sangrur, Punjab -148021. Phone Number: 0161-5059126, Email: rajiv\_ritesh2007@rediffmail.com Website: https://www.riteshinternationalltd.com/Email: cs\_riteshinternational@yahoo.com

S. No	Particulars	Quarter ending 30.09.2023	Year Ended Figures 31.03.2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 38.08.2822 (Duarterly)
1	Total Income from operations	2030.03	12664.36	3227.21
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.81	224.76	68.22
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.83	171.85	67,59
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.83	105.32	50.59
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) & Other Comprehensive Income (after tax)]	0.83	105.32	50.59
6	Equity Share Capital	855.28	855.28	855.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in Audited Balance Sheet of the previous year)	982.11	982.11	844.18
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	100 100 500	1715-000-1	
	Basic : Diluted :	0.01 0.01	1.23 1.23	0.59 0.59

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the websites of the BSE (www.bseindia.com) and on the company's website (www.riteshinternationaltd.com), b) The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 26th October, 2023. c) The above mentioned values are in Lakhs (Except for Earning per Share which is in Rupees) d) There is only one Segment, namely, Non edible Oils, which is the primary reportable segment. By the order of Board of Directors For RITESH INTERNATIONAL LIMITED

Place: Ahmedgarh (Rijul Arora) Date: 26.10.2023

DIN: 07477956 Wholetime Director

INDO COTSPIN LIMITED

Regd. Office: 78 K.m. Delhi Mile Stone, Nh-44, G.t. Road Village: Jhattipur, Panipat-132103 (Haryana) India, CIN: L17111HR1995PLC032541 EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2023 (Rs. In Lakhs)

SI. No.	Bookleston	Current/Quarter Year ending	Corresponding Qtr. For the previous year ended	previous year ended
No.	Particulars	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	206.7	1354.1	153.28
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2.20	25.33	13.62
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.20	25.33	13.62
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.20	25.33	13.62
5.	Equity Share Capital (Face Value Rs.10- each)	420.05	420.05	420.05
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2.23	258.33	11.72
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	0.03	0.56	0.28

and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year to date financial results are available on the Stock Exchange website (www.msei.in) and the company's website (<a href="https://www.indocotspin.com/">https://www.indocotspin.com/</a>)
The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 05th July, 2016.

The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on 27" October, 2023. These results have been subjected to limited review by statutory auditors who have expressed as unqualified opinion

For and on behalf of Indo Cotspin Limited Bal Kishan Aggarwal Managing Director DIN: 00456219

Bank

**IDFC FIRST** 

**IDFC First Bank Limited** 

Date: 27.10.2023

Place: Panipat

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031 Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 12.07.2023 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors

1. Shishir Kumar Raman, 2. Ribha Kumari to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 16,58,667.24/- (Rupees Sixteen Lac Fifty Eight Thousand Six Hundred Sixty Seven and Twenty Four Paise Only) as on 12.07.2023 within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that

the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub - section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 26th day of October 2023. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

property will be subject to the charge of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs.16,58,667.24/- (Rupees Sixteen Lac Fifty Eight Thousand Six Hundred Sixty Seven and Twenty Four Paise Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub - Section (8) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

## Description of the Immovable properties.

All That Piece AndParcel Of Flat No. 306, 3rd Floor (Common Roof), Measuring 850 Sq. Ft., Construction On Free Hold Residential Plot No. 41 & 42, Situated At Khasra No. 160 A, Colony Welcome City, A.S.A. Crown Apartment, Gram-Shahberi, Pargana & Tehsil-Dadri, District- Gautam Budh Nagar (U.P.), Uttar Pradesh-201301. Boundaries Of Plot East: Rasta 22 Ft. Wide, West: Rasta 22 Ft. Wide, North: Rasta 30 Ft. Wide, South: Plot No. 40 & 43 Boundaries Of Said Flat East: Plot No. 43 (Open), West: Entrance Of Flat, North: Flat No. 305, South: Other Property

Date: 26th October 2023 Place:Gautam Budh Nagar Loan Account No:14587107

**Authorised Officer** IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

# **VLS FINANCE LIMITED**

Regd. Office: Ground Floor, 90, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi- 110020 Ph: 91(11) 46656666 Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129 Email: vls@vlsfinance.com Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30-SEP-2023 (Rs. in Lakhs except Earning per Share data) STANDALONE CONSOLIDATED **Particulars** Half Year ended Quarter Ended Half Year ended Quarter Ended 30-Sep-2023 | 30-Sep-2022 30-Sep-2023 30-Sep-2023 30-Sep-2022 30-Sep-2023 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited 7 1 2 3 5 Revenue from continuing operations 8,415.58 7,517.60 19,629.03 8,974,74 8,050,36 20,289.88 7,730.46 7,002.79 18,225.46 8,206.94 7,467.56 18,734.94 Net Profit/(Loss) for the period before tax ( Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations 7,730.46 7,467.56 18,734.94 Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from 7,002.79 18,225.46 8,206.94 continuing operations 6,651.59 5,840.48 15,818.16 6,204.85 Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from 7,027.72 16,222.61 Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operations Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing and 6,651.59 5,840.48 15,818.16 7,027.72 6,204.85 16,222.61 discontinuing operations 12,367.59 33,849.37 14,398.29 17,851.92 40,108.51 Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other 14,960.91 Comprehensive Income for the period) 3,878.42 3,491.82 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10)- Per Share) 3,491.82 3,491.82 3,878.42 3,491.82 (\*\*) (\*\*) (\*\* Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each) 19.06 15.11 45.32 16.05 46.48 20.14 (not annualised) (\*\*) -Basic 19.06 45.32 16.05 46.48 -Diluted (not annualised) (\*\*) 15.11 20.14 (\*\*) (\*\*) (\*\*) (\*\*) ( \*\*) (\*\*) Earning Per Share ( after Extraordinary items) (of Rs.10/-each) 19.06 15.11 45.32 20.14 16.05 46.48 (not annualised) (\*\*) 19.06 15.11 45.32 20.14 16.05 46.48 -Diluted (not annualised) (\*\*)

Place: New Delhi

Date: 26th October, 2023

financialexp.epap.in

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/periodical financial Results are available on the website of the Company (www.ylsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd.(www.nseindia.com) and the Calcutta Stock Exchange (www.cse-india.com). The specified items of the standard financial results of the Company for the quarter and the half year ended 30 September 2023 are given above.

2. The above standalone and consolidated unaudited financial results for the guarter and the half year ended 30 September 2023 were approved and taken on record in the Board Meeting held on 26.10,2023 after being reviewed and recommended by the Audit Committee on the same date and have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 3. The Board of Directors of the Company in its meeting held on 05-Jan-2023 has approved buy-back of its own shares by the Company from open market through Stock Exchange route in terms of proviso to clause (b) of sub section 2 of

section 68 of the Companies Act, 2013 and other applicable regulations. The buyback so approved has opened from 16/01/2023 and closed on 29/05/2023. During this period 38,66,025 equity shares of ₹ 10/- each have been bought back by the company at an average rate of ₹ 179.22 per share. A total sum of ₹ 6,928.59 lakhs (excluding transaction costs) was utilised for the said buyback. Post buyback the paid up share capital of the Company is ₹ 3491.82 Lakhs (including ₹ 12.22 Lakhs being the amount forfeited on 4,67,500 equity shares) comprising 3,47,95,992 equity shares of ₹ 10/- each. Requisite compliances under applicable regulations have been made in respect of aforesaid buyback including for extinguishment of said shares so bought back. Accordingly, EPS has been calculated on weighted average number of shares as on 30 Sept 2023 in accordance with IND-AS 33.

Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to conform to current period classification and rounding off errors have been ignored. The amounts reflected as "0" or "-" in the financial information are values with less than rupees five hundred. By order of the Board

for VLS Finance Limited S.K. AGARWAL **Managing Director** DIN:00106763



THE RESIDENCE

NOTICE TO OUR VALUABLE CUSTOMERS

All our respected customers are hereby

informed that our Faridabad Main Branch

(DP CODE: 0330) is going to be relocated to

Address of new location is mentioned below

Name of the branch: Faridabad Main (DP

Address: 39, Ground Floor, Neelam Bata

P B No. 12, 8/A, Nehru Grounds,

New Industrial Town, Faridabad-121001

IMPORTANT'

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

contents. The Indian Express (P) Limited cannot be

Chief Manager

another location shortly.

Road, Faridabad 121001

IFS Code: CNRB0000330

CODE: 0330)

### ROHA HOUSING GROW WITH YOUR OWN HOME Branch: Faridabad Main (DP CODE: 0330)

### ROHA HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED Corporate Office: Unit No. 1117 & 1118, 11th Floor, World Trade Tower,

Sector 16, Noida, U.P. 201 301

### DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND **ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002** 

NOTICE is hereby given that the following borrower/s who have availed from Roha Housing Finance Private Limited (RHFPL) have

failed to pay Equated Monthly Installments (EMIs) of their loan TO RHFPL and that their loan account has been classified as Nonperforming Asset as per the guidelines issued by National Housing Bank. The borrower(s) have provided security of the immovable property/ies to RHFPL, the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrower/s to RHFPL as on date are also indicated here below. The borrower(s) as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of RHFPL, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFEASI Act). If the following borrower(S) fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same. The public in general is advised not to deal with property/ies described here below.

	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower (s)/ Loan A/c No. / Branch	Demand Notice Date & Amount	Description of secured assets(s) (Immovable property/ies)
1.	HLNRDLSCPR000005001030/Branch: NORTH DELHI  1. Suraj Jha, 2. Lalit Jha, 3. Sunita Jha  ADD1: H.N-2093 A 2nd Floor, Prem Nagar Gali No-17, Delhi, New Delhi-110008, India  ADD2: B 110 SECTOR-67, NOIDA, Noida, Uttar Pradesh-201301, India  ADD3: Flat No. 4, First Floor, Residential Plot No. 41 and 42, Khasra No. 1302, Situated in P N Vihar, Hadbast, Village Loni (Chakbandi Bahar), Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh, India		All that part and parcel of the property bearing Property Address: Flat No. 4, First Floor, Residential Plot No. 41 and 42, Khasra No. 1302, Situated in P N Vihar, Hadbast, Village Loni (Chakbandi Bahar), Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh, India
Pla	Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh, India ce: Ghaziabad		20000

Date: 28.10.2023 Roha Housing Finance Private Limited

COSMO FERRITES LIMITED

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

ana	MANCIAL	RESGETS		Rs. In Lac
Particulars	Quarter Ended 30.09.2023 Unaudited	Six month Ended 30.09.2023 Unaudited	Quarter Ended 30.09.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.202 Audited
Total Income from Operations	2,446	5,219	2,495	10,992
Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	261	641	189	1,255
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, and/or exceptional items)	(53)	15	(50)	315
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(53)	(21)	(50)	315
Net Profit/(Loss) for the period after tax	(43)	(7)	(41)	242
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(45)	(10)	(40)	239
Equity Share Capital	1,203	1,203	1,203	1,203
Earning Per Share (of Rs 10 each)	0 5			
- Basic:	(0.37)	(0.06)	(0.35)	2.01
- Diluted:	(0.37)	(0.06)	(0.35)	2.01

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com).
- The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereunder.

Ambrish Jaipuria Managing Director

O

COSMO FERRITES LIMITED Regd. Office: Jabli, Distt Solan, Himachal Pradesh-173209

CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234, Website: www.cosmoferrites.com, E-mail: investorservices@cosmoferrites.com



Place: New Delhi

Date: 27.10.2023

**Corporate Office:** Chola Crest C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai-600032, India, Branch Office: 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005. POSSESSION NOTICE UNDER RULE 8 (1)

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED

## WHEREAS the undersigned being the Authorised Officer of M/s. Cholamandalam Investment And Finance Company

Limited ,under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 hereinafter called the Act and in exercise of powers conferred under Section 13[12] read with Rules 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued demand notices calling upon the borrowers, whose names have been indicated in Column [B] below on dates specified in Column [C] to repay the outstanding amount indicated in Column [D] below with interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers in particular and the Public in general that the undersigned has taken possession of the properties mortgaged with the Company described in Column

Section 13[4] of the Act read with Rule 3 of the Rules made there under. The borrowers in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the properties mentioned in Column [E] below and any such dealings will be subject to the charge of M/s. Cholamandalam Investment And Finance

[E] herein below on the respective dates mentioned in Column [F] in exercise of the powers conferred on him under

Company Limited for an amount mentioned in Column [D] along with interest and other charges. Under section 13 [8] of the Securitisation Act, the borrowers can redeem the secured asset by payment of the entire outstanding including all costs, charges and expenses before notification of sale. NAME AND ADDRESS OF APPLICANT **DETAILS OF** 

DATE OF DEMAND NOTICE JISTANDING AMOUNT NO & LOAN ACCOUNT NUMBER PROPERTY POSSESSED [B] [C] [E] [D] Loan A/c No. ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FIRST FLOOR AND SECOND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS OF PROPERTY BEARING 6/172 MEASURING 62 SQ.YDS (BLOCK -6, QTR. NO.172) SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF X0HEDHE00001306342 and X0HEEDL00001546634) 1. TAJINDER MOHAN SAPRA 2.SUNITA SAPRA JHEEL KURENJA, GEETA COLONY, DELHI 3.LATE JAGDISH CHANDER SAPRA (Repr.by all its Surviving Legal Heirs) 4. SANJAY SAPRA

1 To 4 At: 6/172 Geeta Colony, Gandhi Nagar, New Delhi- 110031 Also At: 534/4, Jheel Khurenja, Near Geeta Colony Police Station, Delhi -110031 Also At: E-16/1245, 1st Floor, Khalsa NagarBapa Nagar, Karol Bagh Delhi – 110005, M - 9810744057 5. PRAVEEN KUMAR

At: 6/132 Geeta Colony, Gandhi Nagar, New Delhi- 110031 Also At: 534/4, Jheel Khurenja, Near Geeta Colony Police Station, Delhi -110031

Also At: E-16/1245, 1st Floor, Khalsa NagarBapa Nagar, Karol Bagh Delhi - 110005, M - 9810744057 Loan A/c No. Property No.1 All that piece and parcel of X0HEDHE00001306266 and

(REPR.BY ALL IT'S SURVIVING LEGAL HEIRS) 2. DEEPA JAIN 3. ABHISHEK JAIN 4. ANKIT JAIN At: No. 9/2368, Gali Nos. 12, Kailash Nagar, Gandhi Nagar, Delhi - 110031 Also At: No.9/2292, Gali No.11 & 12, Kailash Nagar,

the property bearing No. 995/229- E 6B (Old) and New No.IX/2292 measuring 100 Sq.yds Ahata No.4 consisting of two room set on G.F two room set on F.F with terrace rights fitted with electricity with four meters out of Khasra No.128 situated at abadi Gali Nos.11 & 12 Kailash Nagar in the area of village Seelampur, Illaga Shahdara, Delhi - 110031 which is bounded as under :- East - Gali No.12, West -Gali No.11, North - Portion of said Property, South - Other's Property Property No.2 All that piece and parcel of

the Property House No. IX/2368 measuring

area 120 Sq.yds Ahata No.115 alongwith its 110006 whole of the structure on Ground Floor, First Floor with rights of roof upto last storey, out of Khasra No. 128, situated at abadi Gali No.12, Kailash Nagar in the area of village Seelampur, Illaga Shahdara, Delhi 110031 which is bounded as under: East – Property of Smt Sumitra Devi, West – Gali No.12, North – Gali, South - Property of Smt Kiran Devi and Atma Ram

Loan A/c No. A Plot Land Area Measuring 83.61 Sq.mtrs, I.e.100sq,yds.(plinth Covered Area 25sq.mtrs.) Out Of Entire Area 200sq.yds.
Out Of Khasra No.108/2, Bearing Property
No.a-32 Consisting One Room Set On Ground HE02DES00000002724. X0HEDES00004050759, X0HEDES00003173798 And X0HEDES00003352321)) SATISH NAGAR @SATISH

NAGAR CHANDRAPAL SINGH (APPLICANT) 2. GEETA S @ GEETA (CO\_APPLICANT)

3. SATISH THREAD COMPANY(Through Its Authorized Office/ Authorized

Representative/ Partner/ Director/

Also At: B-191, St.no.16, Khajuri Khas, Delhi-110094.(M)-9911115951/ 9911115950 Also At: A-1/33, Gali No.13, Khajoori Khas, Badarpur Khadar, Sabhapur, New Delhi-110094

PROPRIETORS) (CO\_APPLICANT)

New Delhi

Floor And With The Rights To Construct Upto

The Last Storey Situated At In The Area Village Khajoori Khas, In The Abadi Of Ablock, Gali No.13, Khajoori Khas, Illaga Shardhara , Delhi-110094 Which Is Bounded As Under: E-property Of Rakesh Kataria, Wpart Of Property A-32, N-property Of Veer Pal, S-gali 15 Ft Wide.

At: A-32, Gali No.13, Khajuri Khas, Delhi-110053.(m)-9911115951

Date: 28/10/2023 Place DELHI Authorised Officer: Cholamandalam Investment And Finance Company Limited 

Gandhi Nagar, Delhi - 110031

X0HEEDL00001563721)

1. LATE MR. VINOD KUMAR JAIN

Also At: 12, Makki Paper Market, Chawri Bazar, Delhi

प्रबंध निदेशक

**BHARAT NIDHI LIMITED** 

Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982, E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com | CIN No. U51396DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholder of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost his Share Certificates and application has been made to the Company by his legal heir to issue duplicate share certificates: Name of the Shareholder Father/ Husband's Name No. of Shares held Late Shri Ram Narain Saigal

Jagat Mitter Saigal Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.

Place: New Delhi Company Secretary Date: October 27, 2023



Ghar Ki Baat पजा. कायालय: 9वा तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जा. मार्ग, नइ दिल्ला-110001

फोन: 011-23445200, वेबसाइट: www.pnbhousing.com, CIN No. L65922DL1988PLC033856

सूचनाः निधारित परिसम्पत्तियो की बिक्री अधोलिखित शाखा कार्यालय के पतेः एस-8, ग्रीन पार्क एक्स्टें., उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली 110016 के लिये हमारी निर्धारित परिसम्पत्तियों की बिक्री के आम

जनता से हम बोली आमंत्रित कर रहे हैं।

इच्छुक पार्टियों से आग्रह है कि विवरणों के लिये निविदा खंड के अंतर्गत हमारी वेबसाईट www.pnbhousing.com देखें

फाइनांस लिमिटेड को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी भी बोली को निरस्त/स्वीकार करने का अधिकार है।

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्धधोषणा

(घारा 82 सीआरपीसी)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी (1) प्रेम बजाज, मेसर्स जे के ऑडियो वीडियो के पार्टनर, निवासी 93ए, पॉकेट ए-3, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली-96, (2) एच के बजाज, ऊपरोक्त अनुसार के पार्टनर, निवासी ऊपरोक्त अनुसार, ने सीटी. केस / 53953 / 2016, पुलिस थाना मयूर विहार, दिल्ली, के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त प्रेम बजाज और एच के बजाज, मिल नहीं रहे और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त प्रेम बजाज और एच के बजाज, फरार हो गये है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहे है)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है की उक्त अभियुक्त प्रेम बजाज और एच के बजाज, केस सीटी. केस / 53953 / 2016, पुलिस थाना मयूर विहार, दिल्ली, से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 01.12.2023 को या उससे पहले हाजिर हो।

> आदेशानुसार शहजादी हलीमा सादिया, महानगर दण्डाधिकारी महिला कोर्ट नं. 02.

DP/11993/ED/2023 (Court Matter)

डीवाई, नंबर 923/2023

ऋण वसुली न्यायाधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,

कड़कड़ड़मा कोर्ट, दिल्ली

(वित्तीय सेवा विभाग) दसरी मंजिल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, युके- 248171,

प्रकाशन सूचना

2021 के ओ.ए. नं. 110 में 2023 के एमए नंबर 07 ऋण वसुली न्वायाधिकरण (विधि) नियमों, 1993, यथा समय-समय पर संशोधित, के नियम 5 के

उप नियम (2ए) के साथ पठित ऋण की वसुली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन समन

दिनांक: 11.10.2023

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम श्री गुरदयाल सिंह और अन्य

श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री बचन सिंह निवासी ग्रामः कटैया पंडरी, तहसील एवं जिलाः पीलीभीत, उत्तर प्रदेश

 औ धमेन्द्र पाल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी ग्राम कटैया पंडरी, तहसील एवं जिला पीलीभीत, उ.प्र. (262121) श्री राजेंद्र सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी ग्रामः कटैया पंडारी, तहसील एवं जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश

ब्रॉमती प्रकाश कौर पत्री गुरदयाल सिंह रियो ग्रामः कटैया पंहरी, तहसील एवं जिला पीलीभीत, यूपी

(262121)

5. औं कुलवंत सिंह पुत्र श्री भजन सिंह निवासी ग्रामः कटैया पंडरी तहसील और जिला पीलीभीत, यूपी (262121)

चुंकि उपरोक्त नामित आवेदक चैंक ने आपके खिलाफ 77,86,178.66 रुपये के शेष ऋण की वसुली के लिए 2021 का ओए नंबर 110 में 2023 का एमए ने 07 स्थापित किया है, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण समन/नोटिस जारी करने सहमत हुआ था और माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 03.10.2023 को सूचीबद्ध

चुंकि, न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दिखाया गया है कि सामान्य तरीके से आपकी सेवा करना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस इस प्रकाशन के माध्यम से आपको 20.11.2023 को प्रातः 10.30 वजे न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से

ध्यान दें कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्दिष्ट दिन और समय पर आपकी उपस्थिति में चुक के मामले में, आपकी अनुपरिवति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर व इस न्यायाधिकरण की मुहर के अधीन 11 अक्तूबर, 2023 को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानसार

रजिस्टार ऋण वसली न्यायाधिकरण, देहरादून

### टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल **TATA** मुम्बई-400013, सीआईएन : U67190MH2008PLC187552

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पहले ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे सचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) (सभी को अकेले या एक साथ ''दायित्वधारी'' सन्दर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से सम्बद्ध माँग सूचना/ओं में उल्लिखित राशियों का नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सम्बद्ध सचना/ओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान करने को कहते हुए माँग सचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की प्रतियाँ पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा भेजी गयी थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं तथा कथित दायित्वधारी/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि यदि चाहें तो किसी भी

कार्यदिवस पर कार्यालयी घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से सम्बद्ध प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपर्यक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पनः कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को सचना दी जाती है कि वे सम्बद्ध सचना/ओं की तिथि से उनके सम्बद्ध नामों के सम्मख नीचे वर्णित राशियों का कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा ऋण अनुबन्ध के साथ पठित तथा अन्य दस्तावेजों/लेखनों, यदि कोई हो, द्वारा क्रियान्वित, भुगतान की तिथि तथा/अथवा वसूली की तिथि तक नीचे कॉलम (डी) में वर्णित सम्बद्ध तिथियों से नीचे वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित सम्बद्ध सूचना/ओं की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर टीसीएचएफएल को अदा करने के लिए कहा जाता है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित दायित्वधारी(यों) द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित प्रतिभूत आस्ति(याँ) बन्धक रखी गयी हैं।

अनुबंध सं.	दायित्वधारी( यों )/विधिक उत्तराधिकारी( यों )/विधिक प्रतिनिधि( यों ) के नाम	कुल बकाया राशि रु.*	मांग सूचना की तिथि एनपीए की तिथि
949197	श्री रंजीत कुमार	21/10/2023 तक राशि रु. 7,99,828/- (रुपए सात	21-10-2023
5	(कर्जदार)	लाख निन्यानबे हजार आठ सौ अट्ठाईस मात्र)	07-09-2023

प्रतिभूत आस्तियों /चल संपत्तियों /बंधक संपत्तियों का विवरण: आवासीय मकान नं 4652/एलआईजी/भूतल का समस्त भाग, माप 15.52 वर्ग मीटर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पॉकेट-क्क तहसील बल्लभगढ़, सेक्टर-03, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा) में स्थित, बिक्री विलेख मे उल्लिखित सभी सुविधाओं सहित, सीमाएं : पूर्व : मकान नं. 4677/भूतल, पश्चिम : रोड, उत्तर मकान नं. 4653/भूतल, दक्षिण : मकान नं. 4651/भूतल

			-0.1
	श्री योगेन्द्र कुमार (कर्जदार)		21-10-2023
801	तथा श्रीमती गायत्री देवी	(रुपये पांच लाख अड़सठ	07-08-2023
8	(सह-कर्जदार)	हजार दो सौ चौरानबे मात्र)	

प्रतिभूत आस्तियों /चल संपत्तियों /बंधक संपत्तियों का विवरण: आवासीय इकाई/फ्लैट नं. 4009 का समस्त भाग, 4था तल, टॉवर-सी2, माप कारपेट एरिया 414.37 वर्ग फीट तथा बालकनी क्षेत्रफल 64.58 वर्ग फीट, रहेजा कृष्ण हाउसिंग स्कीम, रहेजा अरण्या सिटी, सेक्टर-14, सोहना, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित

\*उपर्युक्त सम्बद्ध माँग सूचनाओं की तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक व्यय यदि कथित दायित्वधारी उपर्युक्त के अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में असफल होंगे तो टीसीएचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत लागतों तथा परिणामों के लिए पूर्ण रूप से कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के जोखिम पर उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

कथित दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को कथित अधिनियम के तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आस्ति(यों)/अचल सम्पत्ति(यों) को बिक्री, पट्टे या अन्य विधि से टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IMPORTANT

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or entering into any agreements

with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

विलेखों के बिना खो /गुम हो हैं। उसकी सूचना मैंने मै. आयशर मोटर्स लि. को दी गई है और मैं/हमने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

सं.	के नाम	4/IICI4I	प्रं.	नं.	शंयर	कि सं.				
	रा कुमार मिस्त्री संयुक्त	0000664	10664	1064501-1064600	प्रदत्त 10/-					
	सुशीलाबेन मिस्त्री			कुल	प्रदत्त 10/-					
उक्त शेयरों के	संबंध में दावा करने वा	ला कोई भी व	व्यक्ति इस तरह	के दावे को दस्तावेज प्रमा	ण के साथ मै. आ	यशर मोटर्स ।	लिमिटेड			
के पंजीकृत क	के पंजीकृत कार्यालय, तीसरी मंजिल - स्लेक्ट सिटीवॉक, ए - 3 जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली - भारत / या इसके आरटीए									
लिंक इंटाइम प्र	प्रा लि, सी 101, 247 प	गार्क, एल.बी	.एस. मार्ग, विद्र	कोली (पश्चिम), मुंबई -	400083 को इस 1	तिथि से 15	दिनों के			
भीतर पर दर्ज	कर सकता है अन्यथा	मै. आयशर	मोटर्स लिमिटेड	इप्लीकेट प्रमाण पत्र ज	ारी करने के लिए	आगे बढ़ेगा।	ı			
स्थानः अहमद	ाबाद, गुजरात					शेयरधारक	का नाम			
तिथिः 28.10.2	2023				श्रीमती	सुशीलाबेन	मिस्त्री			

(रु. मिलियन में, शेयर डेटा और यदि अन्यथा कथित हो, को छोड़कर)

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व की रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: L72900DL2012PLC244966 पंजीकृत कार्यालय : एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-Ⅱ, नई दिल्ली -110048, भारत

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित

समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

	<del></del>		समाप्त तिमाह		समाप्त	समाप्त वर्ष	
	विवरण	30 सितम्बर, 2023 अलेखापरीक्षित	30 जून, 2023 अलेखापरीक्षित	30 सितम्बर, 2022 अलेखापरीक्षित	30 सितम्बर, 2023 अलेखापरीक्षित	30 सितम्बर, 2022 अलेखापरीक्षित	31 मार्च, 2023 लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	2383.77	2204.63	1314.36	4588.40	2584.84	5850.60
2.	प्रचालनों से आय	2347.24	2144.78	1246.08	4492.02	2439.09	5651.28
3.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	392.83	321.14	156.59	713.97	266.95	672.58
4.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	392.83	321.14	156.59	713.97	266.95	672.58
5.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	300.36	249.09	129.61	549.45	213.80	684.01
6.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय/(हानि) [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	373.19	206.27	162.12	579.46	300.04	807.77
7.	इक्किटी शेयर पूंजी	108.43	108.32	108.20	108.43	108.20	108.32
8.	गत वर्ष के अनुसार अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों, यदि कोई हो, को छोड़कर)						6989.12
9.	बेसिक तथा डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर (रु. 1 प्रत्येक के अंकित मूल्य) (रु. में)						
	येसिक ईपीएस	2.77 (वार्षिकीकृत नहीं)	2.30 ( वार्षिकीकृत नहीं)	1,20 (वार्षिकीकृत नहीं)	5.07 (वार्षिकीकृत नहीं)	1.98 (यार्षिकीकृत नहीं)	6.33
	डाइल्यूटेड ईपीएस	2.76 (यार्षिकीकृत	2.28 (वार्षिकीकृत	1.20 (वार्षिकीकृत	5.01 (वार्षिकीकृत	1.97 (वार्षिकीकृत	6.29

1. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और सिफारिश की गई और बाद में 27 अक्टबर, 2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

2. उपर्युक्त सुचना सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्पनी द्वारा दाखिल अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। उपर्युक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.rategain.com पर उपलब्ध है।

3. 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया ( रु. मिलियन में, शेयर डेटा और यदि अन्यथा कथित हो, को छोड़कर )

भान चोपडा

(चेवरमैन तथा प्रबंध निदेशक)

480.28	448.95	323.05	929.23	632.56	1351.59
391.77	384.15	268.28	775.92	518.09	1132.76
56.20	69.41	26.29	125.61	59.87	83.20
41.27	51.69	19.33	92.96	41.88	57.37

स्थान : दिल्ली तिथि : 27 अक्टूबर, 2023

Chola

कुल आय

प्रचालनों से आय

कर पूर्व निवल लाभ

कर पश्चात निवल लाभ

विवरण

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी ५४ एवं ५५, सुपर बी-४, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत, शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

## कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित तदधीन विरचित नियमावली के नियम 3 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत् सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

	क्र. सं.	आवदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	प्रक्रम मिन सुके विक्रम सिक्रम सिक्रम सिक्रम सिक्रम सिक्रम सिक्रम सिक्र								
r	(ए)	(ৰী)	(सी)	(डी)	(\$)	(एफ)					
	1.	(ऋण खाता सं. <b>X0HEDHE00001306342</b> तथा <b>X0HEEDL00001546634)</b> 1. तेजिन्दर मोहन सप्रा 2. सुनीता सप्रा 3. स्व. जगदीश चंदर सप्रा (इनके सभी जीवित	24-07-2023	क. 53,43,419/— (फपए तिरेपन लाख तेतालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) 24–07–2023 तक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति 6 / 172 का प्रथम तल और द्वितीय तल, छत का अधिकार नहीं, परिमाप 62 वर्ग गज, (ब्लॉक—6, क्वार्टर नंबर 172) स्थित लेआउट प्लान झील खुरंजा, गीता कालोनी, दिल्ली						
		कानूनी वारिसों द्वारा प्रतिनिधित्वकृत) 4. संजय सप्रा 1 से 4 का पता : 6/172, गीता कालोनी, गांधी नगर, नई दिल्ली—110031 अन्य पता : 534/4, झील खुरंजा, निकट गीता कालोनी पुलिस स्टेशन, दिल्ली—110031 अन्य पता : ई—16/1245, प्रथम तल, खालसा नगर बापा नगर, करोल बाग, दिल्ली—110005, एम — 9810744057 5. प्रवीण कुमार पता : 6/132, गीता कालोनी, गांधी नगर, नई दिल्ली—110031 अन्य पता : 534/4, झील खुरंजा, निकट गीता कालोनी पुलिस स्टेशन, दिल्ली—110031 अन्य पता : ई—16/1245, प्रथम तल, खालसा नगर बापा नगर, करोल बाग, दिल्ली—110005, एम — 9810744057									
	2.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001306266 तथा X0HEEDL00001563721) 1. स्व. श्री विनोद कुमार जैन (इनके सभी जीवित कानूनी वारिसों के माध्यम से) 2. दीपा जैन 3. अभिषेक जैन	14-08-2023	क. 6,22,97,922 / – (फपए छह कऐड बाईस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ बाईस मात्र) 07–08–2023 तक बकाया	सम्पत्ति सं. 1 : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 995/229— ई 6बी (पुराना) तथा नया नंबर 9/2292, परिमाप 100 वर्ग गज, अहाता नंबर 4, जिसमें जीएफ पर दो रूम सेट एफ.एफ पर दो रूम सेट टेरेस के अधिकार सहित, चार मीटरों के साथ बिजली फिटिंग शामिल है, खसरा नंबर 128 का भाग, स्थित आबादी गली नंबर 11 एवं 12,						

कैलाश नगर, ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, 4. अंकित जैन दिल्ली–110031, जो निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब 🖁 पता : नंबर 9 / 2368, गली नंबर 12, कैलाश नगर, गांधी नगर, गली नंबर 12, पश्चिम : गली नंबर 11, उत्तर : उक्त सम्पत्ति का भाग, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति 🖠 🖰 अन्य पता :— नंबर 9 / 2292, गली नंबर 11 एवं 12, कैलाश सम्पत्ति सं. 2 : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031 अन्य पता :- 12, मक्की पेपर मार्किट, चावड़ी बाजार, मकान नंबर 9/2368, परिमाप 120 वर्ग गज,

इसका सम्पूर्ण स्ट्रक्चर शामिल है, आखिरी मंजिल तक छत के अधिकारों सहित, खसरा नंबर 128 का भाग, स्थित आबादी गली नंबर 12, कैलाश नगर, ग्राम सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110031, जो निम्नानुसार परिबद्ध है पुरब : श्रीमती सुमित्रा देवी की सम्पत्ति, पश्चिम : गली नंबर 12, उत्तर : गली, दक्षिण : श्रीमती किरण देवी और

आत्मा राम की सम्पत्ति एक प्लॉट भूमि क्षेत्रफल परिमाप 83.61 वर्ग मीटर यानी ऋण खाता सं. HE02DES00000002724.

X0HEDES00003173798 ਰਘਾ X0HEDES00003352321)

तिथि : 28-10-2023 स्थान : दिल्ली

X0HEDES00004050759,

दिल्ली-110006

1. सतीश नागर उर्फ सतीश नागर चंद्रपाल सिंह

2. गीता एस उर्फ गीता (सह–आवेदक) 3. सतीश थ्रेड कम्पनी (इसके अधिकृत

100 वर्ग गज (प्लिंथ कवर्ड एरिया 25 वर्ग मीटर) खसरा नंबर 108/2 में से कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज का भाग, सम्पत्ति सं. ए–32, जिसमें भू तल पर एक कमरे का सेट है तथा उसके ऊपर आखिरी मंजिल तक निर्माण का अधिकार है, सम्पत्ति ग्राम खजूरी खास, आबादी ए-ब्लॉक, गली नंबर 13, खजूरी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110094 में स्थित है और निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : राकेश कटारिया की सम्पत्ति, पश्चिम : सम्पत्ति सं. ए–32 का भाग, उत्तर : वीर पाल की सम्पत्ति, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी गली

अहाता नंबर 115, जिसमें भू तल, प्रथम तल पर

कार्यालय/अधिकृत प्रतिनिधि/पार्टनर/निदेशक/ स्वामीगण के माध्यम से) (सह–आवेदक) पता : ए–32, गली नंबर 13, खजूरी खास, दिल्ली–110053. (एम)–9911115951

अन्य पता : बी—191, गली नंबर 16, खजूरी खास, दिल्ली—110094. (एम)—991115951 / 9911115950 अन्य पता : ए—1/33, गली नंबर 13, खजूरी खास, बदरपुर खादर, सभापुर, नई दिल्ली—110094

दिनांक : 27.10.2023

इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड पंजी. कार्यालय: 78 कि.मी. दिल्ली माइल स्टोन, एनएच-44, जी.टी. रोड ग्राम : झट्टीपर, पानीपत-132103 (हरियाणा) भारत, सीआईएन: L17111HR1995PLC032541

<del>क्रम</del> सं.	30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए स्टे विवरण	समाप्त चालू तिमाही ∕वर्ष	समाप्त पूर्व वर्ष के लिये तत्स्थानीय तिमाही	(रु. लाख में समाप्त पूर्व वर्ष
		30.9.2023 ( अनंकेक्षित )	30.9.2022 ( अनंकेक्षित )	31.3.2023 ( अनंकेक्षित )
1. परिचालनों से कुल आ		206.7	1354.1	153.28
	ताभ/ (ज्ञानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	2.20	25.33	13.62
	लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मर्दों के बाद)	2.20	25.33	13.62
	लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	2.20	25.33	13.62
ά.	म मूल्य रु.10/- प्रति)	420.05	420.05	420.05
	अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	2.23	258.33	11.72
<ol> <li>आय प्रति शेयर (रु. 1) मूल :</li> <li>1) तरल :</li> <li>टेप्पणी :</li> </ol>	i0/- प्रति का जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	0.03	0.56	0.28

1. उपरोक्त सेबी ( सचीयन दायित्व तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही एवं तिथि तक वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पुर्ण प्रारूप स्टॉ एक्सचैंज की वेबसाइट (www.msci.in) तथा कम्पनी की वेबसाइट (https://www.indocotspin.com/) पर उपलब्ध है। लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय अथवा अन्य किसी संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फुट नोट द्वारा उद्घाटित किया जायेगा।

. इन वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत तथा सेंबी (सूचयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन

2015 (यथा संशोधित) के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्यलर तिथि 5 जलाई. 2016 के अनसार तैयार किया गया है। . उपरोक्त परिणामों की निदेशक मंडल के लिये ऑडिट कर्मिटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा बाद में 27 अक्टूबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वार

अनमोदित किये गये। ये परिणाम सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन रखे गये जिन्होंने अन्यथा लिफायड अभिमत प्रकट किये हैं। कत्ते एवं के लिये. इण्डो कॉटस्पिन लिमिटेड

बाल किशन अगरवाल तिथि : 27.10.2023 स्थान : पानीपत DIN:00456219

राहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सेक्टर-16, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201 301

GROW WITH YOUR OWN HOME

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निगमित कार्यालय : यूनिट नं. 1117 व 1118, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर,

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता ⁄ गण, जिन्होंने रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेंड (आरएचएफपीएल) से ऋण प्राप्त किया था, आरएचएफपीएल को अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किस्तों (ईएमआई) का भगतान करने में विफल हो चुके हैं तथा फलतः उनके ऋण खाता को राष्ट्रीय आवासन बैंक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जनक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उधारकर्ता(ओं) ने आरएचएफपीएल को अचल संपत्ति / यों की प्रतिभृति उपलब्ध करायी है, जिसके विवरण यहां इसमें निम्न तालिका में विवरणित हैं। ऋण तथा तिथि के अनुसार आरएचएफपीएल को उधारकर्ता/ओं द्वारां भुगतानयोग्य तथा बकाया राशियों के विवरण भी यहां निम्न तालिका में उल्लिखित हैं। उधारकर्ता(ओं) के साथ–साथ सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आरएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित उधारकर्ता(गण) इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के अंदर यहां निम्न तालिका में उनके नामों के समक्ष अंकित बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभृत ऋणदाता को प्रदत्त किसी भी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्ति / यों का अधिग्रहण किये जाने तथा उसे / उन्हें बेचने की शक्ति भी सम्मिलित है। सर्वसाधारण को सलाह है कि यहां नीचे तालिका में विवरणित संपत्ति / यों के साथ संव्यवहार न करें।

क्र. सं.	उधारकता(आ) / सह—उधारकता(आ)  क नाम / ऋण  खाता  सं. / शाखा	माग सूचना तिथि	
۲۱.	भाग ऋण खाता स./ शाखा HLNRDLSCPR000005001030 / शाखा : उत्तरी दिल्ली	<b>एवं राशि</b> 11.10.2023	संपितत / यों) का विवरण संपितत के समस्त वह भाग तथा अंश
	1. सूरज झा, 2. ललित झा, 3. सुनीता झा		जिसका संपत्ति पता इस प्रकार है :
	<b>पता 1 :</b> मकान नं.—2093 ए, द्वितीय तल, प्रेम नगर गली नंबर—17, दिल्ली, नई दिल्ली—110008, भारत		फ्लैट नंबर 4, प्रथम तल, आवासीय प्लॉट नंबर 41 एवं 42, खसरा नंबर
	पता 2 : बी 110 सेक्टर—67, नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301, भारत		1302, जो पी एन विहार, हदबस्त, ग्राम
	<b>पता 3</b> : फ्लैट नंबर 4, प्रथम तल, आवासीय प्लॉट नंबर 41 एवं 42, खसरा नंबर 1302, जो पी एन विहार, हदबस्त, ग्राम लोनी (चकबंदी बाहर),		लोनी (चकबंदी बाहर), गाजियाबाद— 201102, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है।
	गाजियाबाद—201102, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है।		201102, उत्तर प्रदरा, मारत म स्थित है।
TOTE	T - Informaci		चाचा / माणिकच अणिकारी

स्थान : गाजियाबाद हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 28-10-2023 रोहा हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : 487/63. प्रथम तल. नेशनल मार्केट. पीरागढी. नई दिल्ली-110087

4	JRJA	सीआईएन	: L67120DL	.1992PLC048	983		
	30 सितम्बर, 2023 व		हा तथा छमाहा परिणामों का		न अलखापराहि	त	(रु. लाख में
<b>京</b> 花		स्टैंडएलोन समाप्त तिमाही		समेकित समाप्त छमाही		स्टैंडएलोन सम	समेकित ाप्त वर्ष
1.		30.09.2023 ( अलेखापरीक्षित )	<b>30.09.2022</b> ( अलेखापरीक्षित )	30.09.2023 ( अलेखापरीक्षित )	30.09.2022 ( अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 ( लेखापरीक्षित )	31.03.2023 ( लेखापरीक्षित )
1	प्रचालनों से कुल आय (निबल)	1,071.11	964.54	1,131.37	970.42	4,038.46	4,141.22
2	अवधि हेतु निबल लाभ (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	81.63	98.40	89.51	105.80	179.02	197.85
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	81.63	98.40	89.51	105.80	179.02	197.85
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	81.63	98.40	89.51	105.80	179.02	152.50
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	81.63	98.40	89.51	105.80	179.02	152.50
6	इक्विटी शेयर पूँजी	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01
7	आरक्षियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)						*
8	आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक) (सतत प्रचालनों हेतु)		*	(30)			
	1. मूल	0.0153	0.0184	0.0168	0.0198	0.0335	0.0286

1. वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट यथा संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के मान्य एवं मापन के अनुसार के अनुसार तैयार किये गये हैं। 2. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/प्रकटन के संगत करने के लिए आवश्यकतानुसार गत अवधि के आँकड़ों को पुनर्समुहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

0.0184

3. ईपीएस की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में यथासंशोधित यथा निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 में कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसुचित के अनुसार इण्ड एएस 33 के अनुरूप की गयी है।

0.0153

4. उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है तथा 27 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी है।

कृते ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड

मोहन जगदीश अग्रवाल प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07627568

0.0168

0.0198

0.0335

0.0286

2. डाइल्यूटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 27 अक्टूबर, 2023

कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 94, प्रथम तल, शम्भू दयाल बाग मार्ग, निकट ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया

फेज-III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110020 दूरभाष : 011-40551200\* फैक्स : 011-40551280/81 \* ईमेल : ccil@cordscable.com वेबसाइट : www.cordscable.com \* सीआईएन : L74999DL1991PLC046092

30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों कासार

	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त छिमाही	समाप्त डिमाही	समाज वर्ष
		30/09/2023 अलेखापरीक्षित	30/06/2023 अलेखापरीक्षित			30/09/2022 अलेखापरीक्षित	31/03/2023 लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	14793.80	13588.56	13208.96	28382.36	25567.43	52764.72
2	अर्थाध हेतु निबल लाभ/हानि (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	279.71	246.80	240.42	526.52	481.55	974.55
3	कर पूर्व अवधि हेतु निचल लाभः/(हानि) (अपवादित तथाः/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	279.71	246.80	240.42	526.52	481.55	974.55
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	203.93	185.13	172.22	389.08	345.73	721.94
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]						
	4	203.07	182.89	171.85	385.97	344.98	713.32
6	इक्किटी शेयर पूँजी (प्रदत्त)(रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मृल्य)	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78	1292.78
7	अन्य इंक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में प्रदर्शित है						14627.88
8	आय प्रति शेयर (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु)						
	(अ) बेसिक (च) डाइल्युटेड	1.57	1.41	1.33	2.99	2.67	5.52
	The second secon	1.57	1.41	1.33	2.99	2.67	5.52

1. उपर्युक्त अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 27 अक्टूबर, 2023 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक में अनुमोदित की गयी।

2. कम्पनी के विधिक लेखापरीक्षकों इन परिणामों की सीमित समीक्षा की है और ये परिणाम सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम

2015 के विनियम 33 के अनुसार प्रकाशित किये जा रहे हैं। 3. उपर्युक्त सेबी ( सुचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ), विनियम 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 30 सितम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी

की वेबसाइट (www.cordscable.com) पर उपलब्ध है। 4. कम्पनी इण्ड एएस-108 में परिभाषित के अनुसार एकल खण्ड में प्रचालन कर रही है, अतः खण्ड प्रतिवेदन कम्पनी के लिए प्रयोज्य

5. उपर्युक्त अवधियों हेत् कम्पनी द्वारा प्रतिवेदन के लिए कोई अन्य अपवादित मद नहीं है।

6. स्टैण्डएलोन परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस), कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के अनुसार

तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के सन्दर्भ में तैयार किये गये हैं। 7. वर्तमान अवधि के आँकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए गत तिमाही/वर्ष के आँकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्वर्गीकृत, पुनर्समूहीकृत तथा पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते कॉईस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

नवीन साहनी (प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन : 00893704

प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायबैंस कम्पनी लिमिटेड

तिथि : 30.10.2023 स्थान : दिल्ली

www.readwhere.com